

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 28 फ़रवरी 2023

### प्रश्न -1

RBIने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड (RCL) की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है?

- A) आशीष कुमार चौहान
- B) शेखर चौधरी
- C) सुंदररमन राममूर्ति
- D) विक्रमादित्य सिंह खिची

**सही उत्तर: D**

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने संकटग्रस्त अनिल अंबानी समर्थित रिलायंस कैपिटल के प्रशासक को सलाह देने के लिए एक पैनल में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व ED विक्रमादित्य सिंह खींची को नियुक्त किया है।

### प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) आलोक रंजन
- B) बी.वी.आर सुब्रह्मण्यम
- C) नृपेंद्र मिश्रा
- D) विनोद राय

**सही उत्तर: B**

नियुक्ति पर कैबिनेट समिति ने पूर्व केंद्रीय वाणिज्य सचिव और सेवानिवृत्त सिविल सेवक बी .वी.आर सुब्रह्मण्यम को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में नियुक्त किया है। वह परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे, जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 28 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-3

ISSF विश्व कप में, किस निम्नलिखित देश ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्वर्ण जीता?

- A) चीन
- B) भारत
- C) USA
- D) उज़्बेकिस्तान

**सही उत्तर: B**

भारत ने काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल और 10 मीटर एयर पिस्टल दोनों की मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। आर. नर्मदा नितिन और मौजूदा एयर राइफल विश्व चैंपियन रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम जीतकर भारत को ISSF विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया।

### प्रश्न-4

भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा पार कनेक्टिविटी शुरू की?

- A) USA
- B) सिंगापुर
- C) कतर
- D) मलेशिया

**सही उत्तर: B**

भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के पेनाउ को सीमा पार प्रेषण के तेजी से और लागत कुशल हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने 21 फरवरी, 2023 को इस क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी को वर्चुअल रूप से लॉन्च किया।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 28 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-5

संयुक्त उद्यम वेदांता-फॉक्सकॉन निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीस्थापित कर रहा है?

- A) मध्य प्रदेश
- B) कर्नाटक
- C) गुजरात
- D) बिहार

**सही उत्तर: C**

अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली वेदांता और विनिर्माण दिग्गज फॉक्सकॉन के बीच संयुक्त उद्यम ने घोषणा की है कि वह गुजरात के अहमदाबाद के पास धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में भारत की पहली सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीस्थापित कर रहा है।

### प्रश्न-6

अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया था?

- A) 23 फ़रवरी
- B) 22 फ़रवरी
- C) 21 फ़रवरी
- D) 20 फ़रवरी

**सही उत्तर: C**

भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय "बहुभाषी शिक्षा - शिक्षा को बदलने के लिए एक आवश्यकता" है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 28 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-7

राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर , भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) चीन
- B) फ़िजी
- C) जर्मनी
- D) उरुग्वे

**सही उत्तर: B**

भारत और फिजी ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर समझौता ज़ापन ( MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत , राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए वीजा के बिना एक-दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश , पारगमन और रहने में सक्षम होंगे।

### प्रश्न-8

'दिव्यांगता के क्षेत्रमें सहयोग के लिए ,केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समझौता ज़ापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी?

- A) बोत्सवाना
- B) ब्राज़ील
- C) दक्षिण अफ़्रीका
- D) ज़िम्बाब्वे

**सही उत्तर: C**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'दिव्यांगता के क्षेत्र' में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच समझौता ज़ापन ( MOU) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। द्विपक्षीय समझौता ज़ापनदिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांकगजन सशक्तिकरणविभाग , भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 28 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-9

स्थिर जैमर-प्रूफ संचार के लिए, निम्नलिखित में से किसने 'वायुलिक' प्लेटफॉर्म विकसित किया है?

- A) DRDO
- B) भारतीय नौसेना
- C) भारतीय सशस्त्र बल
- D) भारतीय वायु सेना

**सही उत्तर: D**

'वायुलिक' के नाम से भारतीय वायु सेना ने एक अभिनव समाधान निकाला है जो पायलटों को खराब मौसम से निपटने में मदद करेगा और उन्हें बेस स्टेशन के साथ जैमर-प्रूफ निर्बाध संचार भी प्रदान करेगा।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किसने हाल ही में फिजी में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है?

- A) अमित शाह
- B) नरेंद्र सिंह तोमर
- C) राजनाथ सिंह
- D) एस. जयशंकर

**सही उत्तर: D**

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में फिजी के सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों की एक बड़ी सभा के साथ बातचीत की।